



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 301]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 20, 2013/कार्तिक 29, 1935

No.301]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 20, 2013/KARTIKA 29, 1935

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 12 नवम्बर, 2013

सं. टीएएमपी/53/2007-जेएनपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धाराओं 48, 49 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतद्वारा जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के प्रचलित दरमान की वैधता को इसके साथ संलग्न आदेशानुसार विस्तार प्रदान करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

सं. टीएएमपी/53/2007-जेएनपीटी

गणपूर्ति

(i) श्री टी. एस. बालासुब्रमणियन, सदस्य (वित्त)

(ii) श्री चंद्र भान सिंह, सदस्य (अर्थ)

आदेश

(अक्टूबर 2013 के 29वें दिन पारित)

यह प्रकरण, जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास(जेएनपीटी) के प्रचलित दरमान की वैधता के विस्तार से संबंधित है।

2. जेएनपीटी का प्रचलित दरमान इस प्राधिकरण द्वारा पिछली बार आदेश सं. टीएएमपी/58/2007-जेएनपीटी दिनांक 18 फरवरी, 2011 के माध्यम से अनुमोदित किया गया था जिसे भारत का राजपत्र में 24 मार्च 2011 को अधिसूचित किया गया था वह आदेश दरमान की वैधता 31 मार्च 2013 तक प्रदान करता है। बाद में, प्रचलित दरमान की वैधता इस प्राधिकरण ने दिनांक 9 मई 2013 के माध्यम से 30 सितंबर 2013 तक विस्तारित की गई थी।

3. जेएनपीटी के दरमान के सामान्य संशोधन के लिये दिनांक 5 अक्टूबर 2012 और 19 दिसंबर 2012 के अपने पत्र द्वारा जेएनपीटी द्वारा दाखिल प्रस्ताव संबंधित पत्तन उपयोगकर्ताओं/उपयोगकर्ता संगठनों के साथ परामर्श के लिये लिया गया है। इस प्रकरण में संयुक्त सुनवाई 30 अगस्त 2013 को आयोजित की गई थी जैसाकि संयुक्त सुनवाई में स्वीकार किया था, दिनांक 5 सितंबर 2013 के हमारे पत्र के माध्यम से जेएनपीटी से अनुरोध किया गया था कि वह संयुक्त सुनवाई में निर्णित बिंदुओं पर कार्रवाई आरंभ करे।

4. दिनांक 12 सितंबर, 2013 के अपने पत्र के माध्यम से जेएनपीटी ने आंशिक रूप से दिनांक 4 जून 2013 के हमारे पत्र के माध्यम से उठाए गए प्रश्नों के संदर्भ से, अपना उत्तर प्रस्तुत किया है कुछ बिंदुओं पर जेएनपीटी के उत्तर की अभी प्रतीक्षा हो रही है। उसको देखते हुए, इस प्राधिकरण के विचार विमर्श द्वारा कार्रवाई के लिये इस प्रकरण को परिपक्व होने के लिये कुछ समय लगेगा।

5. वर्तमान दरमान की वैधता 30 सितंबर 2013 को समाप्त हो गई है हमारे द्वारा उठाये गए प्रश्नों के एक भाग पर जेएनपीटी को अपना उत्तर अभी प्रस्तुत करना है, और जेएनपीटी से पूरा उत्तर प्राप्त होने पर प्रकरण की जांच-पड़ताल और उसे अंतिम रूप देने में लागने वाले समय, (इन दोनों) को स्वीकार करते हुए, यह प्राधिकरण जेएनपीटी के प्रचलित दरमान की वैधता को 31 दिसंबर 2013 तक अथवा संशोधित दरमान के क्रियान्वयन की प्रभावी तिथि तक, इनमें से जो भी पहले हो, विस्तारित करता है।

6. इसकी निष्पादनता की समीक्षा के दौरान 1 अप्रैल 2013 के बाद की अवधि के लिये स्वीकार्य लागत और अनुमेय प्रतिलाभ से अधिक यदि कोई अतिरिक्त अधिशेष उभरता है तो ऐसा अधिशेष निर्धारित किये जाने वाले प्रशुल्क में पूरा-पूरा समायोजित किया जाएगा।

टी. एस. बालासुब्रमणियन्, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन III/4/असाधारण/143/13]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 12th November, 2013

No. TAMP/53/2007-JNPT.— In exercise of the powers conferred under Sections 48, 49 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing Scale of Rates at Jawaharlal Nehru Port Trust as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

No. TAMP/53/2007-JNPT

QUORUM

- (i) Shri T. S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii) Shri Chandra Bhan Singh, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 29th day of October, 2013)

This relates to the extension of the validity of the existing Scale of Rates of the Jawaharlal Nehru Port Trust Private Limited (JNPT).

2. The existing Scale of Rates (SOR) of the JNPT was last approved by this Authority vide Order No. TAMP/53/2007-JNPT dated 18 February 2011 which was notified in the Gazette of India on 24 March 2011. The Order prescribes the validity of the SOR till 31 March 2013. Subsequently, the validity of the existing SOR was extended by this Authority till 30 September 2013 vide its Order dated 9 May 2013.

3. The proposal filed by the JNPT vide its letter dated 5 October 2012 and 19 December 2012 for general revision of its Scale of Rates is taken on consultation with the concerned port users/user organisations. Joint hearing in this case was held on 30 August 2013. As agreed at the joint hearing, the JNPT was requested vide our letter dated 5 September 2013 to initiate action on the points decided at the joint hearing.

4. The JNPT vide its letter dated 12 September 2013 has furnished its reply partially with reference to queries raised vide our letter dated 4 June 2013. The response of the JNPT on few points is awaited. In view of that it will take some time for the case to mature for consideration of the Authority.

5. The validity of the existing SOR expired on 30 September 2013. Recognizing that the JNPT has yet to furnish its response on part of the queries raised by us and the time involved in examination and finalization of the case on receipt of complete reply from the JNPT, this Authority extends the validity of the existing SOR of the JNPT from the date of its expiry till 31 December 2013 or till the effective date of implementation of the revised Scale of Rates, whichever is earlier.

6. If any additional surplus over and above the admissible cost and permissible return emerges for the period post 1 April 2013, during the review of its performance, such additional surplus will be set off fully in the tariff to be determined.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)
[ADVT-III/4/Exty/143/13]